

# dishman

25th July, 2020

To.

**Department of Corporate Services BSE Ltd.** 

Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street,

Mumbai – 400 001.

Ref.: Scrip Code No.: 540701

To,

The Manager, Listing Department,

National Stock Exchange of India Ltd.

"Exchange Plaza", C-1, Block G,

Bandra-Kurla Complex,

Bandra (E), Mumbai – 400 051.

Ref.: (i) Symbol – DCAL

(ii) Series - EQ

Sub.: Filing of Post Buy-back Public Announcement pursuant to provisions of Regulation 24(vi) of the SEBI (Buy-Back of Securities) Regulations, 2018 ("Buy-back Regulations") and Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Ref.: Our letter regarding Intimation of Closure of Buy-back of Equity Shares by Dishman Carbogen Amcis Limited ("Company") dated 24<sup>th</sup> July, 2020

Dear Sir/Madam,

Pursuant to provisions of Regulation 24(vi) of the Buy-back Regulations, the Company has published the Post Buy-back Public Announcement in the Financial Express-English (All Editions), Janasatta - Hindi (All Editions) and Financial Express – Gujarati (Ahmedabad Edition) on July 25, 2020.

In compliance with Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are submitting herewith newspaper e-clippings of the Post Buy-back Public Announcement for your perusal.

The above information will also be made available on the website of the Company: <a href="https://www.dishmangroup.com">www.dishmangroup.com</a>

You are requested to kindly take the same on records.

**Ahmed**abad

Thanking you.

Yours faithfully,

For, Dishman Carbogen Amois Limit

Shrima Dave Company Secretary

Encl.: As Above

**Dishman Carbogen Amcis Limited** 

Regd. Off.: DISHMAN CORPORATE HOUSE Iscon-Bopal Road, Ambli, Ahmedabad-380 058, Gujarat, India. Phone: +91 (0) 2717 420102 / 2717 420124

Government Recognised Export House CIN No.: L74900GJ2007PLC051338

E-mail: dcal@dishmanaroup.com

Website: www.dishmangroup.com

#### US TENSIONS CLOUD OUTLOOK

## China's economy seen growing 2.2% in 2020

Exports improved largely due to massive demand for medical gear

REUTERS Beijing, July 24

CHINA'S ECONOMY IS expected to recover steadily in the rest of the year, boosted by

the rest of the year, boosted by stimulus measures to reverse the damage from the coronavirus crisis, but weak global demand and rising Sino-US tensions are key risks, a Reuters poll showed on Friday. The world's second-biggest economy is now expected to expand by 2.2% in 2020, according to the median of 42 analysts surveyed by Reuters, up from 1.8% projected in the



last poll in April.
But that pace would still be
the weakest since 1976 - the
final year of Mao Zedong's Cultural Revolution.

tural Revolution.
China's economy expanded
3.2% in the second quarter
from a year earlier, following a
record 6.8% slump in the first
three months of the year as the
virus and strict measures to
contain it paralysed much of
the country.

the country.

But analysts warn that the rebound is heavily reliant on state-led investment, while consumption remains weak.

National disposable income per capita fell 1.3% in the first half of the year, according to official data.

Manufacturing and construction have snapped back relatively quickly. But the services sector has lagged, with the catering, hospitality and entertainment sectors strugging to get back relatively quickly. But the services sector has lagged, with the catering, hospitality and sentential sectors strugging to get back resurged and the sector strugging to get back the sector of the sect

consumption/services amid elevated uncertainty in the labour market," said analysts from Bank of America Merrill Lynch,

## China-US relations at a turning point

FOUR DECADES AFTER the US

established diplomatic ties with Communist China, the rela-tionship between the two may have reached a turning point. Tensions have reached new heights on what has always been a rocky road, as the ambi-tions of a rising superpowerin-creasingly clash with those of the established one. China ordered the closing of the US Con-sulate in the southwestern city of Chengdu on Friday, in rapid retaliation for the closing of its consulate in Houston.

consulate in Houston.
Two weeks ago, Chinese Foreign Minister Wang Yi asked aloud if relations could stay on track. On Thursday, US Secretary of State Mike Pompeo delivered an answer: The time has come to change course.
"The old paradigm of blind engagement with China Simply work or at it down "he asid in a vent of the country of the

engagement with China simply won't get it done," he said in a speech at the Richard Nixon Presidential Library in South-ern California, "We must not



continue it. We must not return

continue It. We must not recursion to it."

It was Nixon's visit to China in 1972, the first by an American president since the Communists took power in 1949, that upended a Gold War paradigm and pawed the way for the normalization of relations in 1979.

The United States had been a close ally of then-Chinese leader Chiang Kai-shek in World War II and for three decades recognised Taiwan as the government of China after

Relations between Wash ington and the Communist government in Beijing began to thaw in the 1970s, as China's ties with the Soviet Union deteriorated and leader Mao Ze

riorated and leader Mao Zedong sought a counterweight to its more powerful neighbor. A new leader, Deng Kiaopingsvistet the USB in 1979 after the establishment of diplomatic ties, smilling in photos as he tried on a cowboy hat in Texas. The Houston consulate that is being shut opened later the same year. It was China's First in the United States. Setting aside political differences, the US and China pro-

that were briefly in-terrupted a decade later by China's mili-tary crackdown on the 1989 pro-democ-racy demonstrations

the 1989 pto-denitic-racy demonstrations in Beijing's Tianan-men Square. Economic links grewexponentially in the following years, with heavy invest-ment by US busi-nesses in China and an accompanying Chinesetradesurplus Chinesetradesurplus that has reached \$350 billion annu-ally. The relationship was punctuated by bouts of tension. The US continues to sup-port Taiwan militar-ily, and the Clinton administration sent an aircraft carrier through the Taiwan Strait in 1996 after China fired missiles toward the island.

U.P. POWER CORPORATION LIMITED Specification- RFP No. 04/UPPCL/RAPDRP-A/Cloud Procurement/2020 Dated 23.07.2020 S.No. Particulars e-Tendering Notice no. Details 04/UPPCL no. Details 04/UPPCL/ RAPDRP-A/Cloud Procurement/ 2020 S.No. 2 Particulars e-Bid Portal (website) Details https://etender.up.nic.in S.No. 2 Particulars Name of Work Details Selection of System Integrator for Procurement of of Integrator for Procurement of off premise cloud services for UPPCL S.No. 4 Particulars e-Tender Cost Details Rs. 10.000/- + GST (Non-Refundable) S.No. 5 Particulars Earnest money deposit (EMD) Details Rs. 10.00.000/- (Rs. Ten Lac Only) S.No. 6 Particulars Document of the Complication and the complications and the control of the complication and control of the cont downloading/ sale date starts Details 23/07/2020 S.No. 7 Details 23/07/2020 S.No. 7
Particulars Document
download/ sale date ends
Details 13/08/2020 till 5:00 PM
S.No. 8 Particulars e-Bid
submission start date Details
23/07/2020 S.No. 9 Particulars
- Bid submission end date e-Bid submission end date Details 13/08/2020 / till 05:00 PM S.No. 10 Particulars Las date for submission of hard cop of requisite documents Detail 13/08/2020 / NII 05:00 PM S.No

13/08/2020 / Illi 05/00 PM S.No. 11 Particulars Opening date of e-bid part-I Details 14/08/2020 / at 03:00 PM S.No. 12 Particulars Opening date of e-bid part-II Details To be notified later. Note: Bid shall be notified later. Note: Bid shall be accepted thorough the e-lender portal. Tender issuing authority is not responsible for the delay/downloading of tender document by the recipient due to any problem in accessing the e-tender website. The tender issuing authority is also not responsible for delay in uploading bids due to any problem in the e-tender website. Further details are available at website: <a href="https://tender.up">https://tender.up</a>. Further details are available at website: https://tender.up.nic.in/UPPCL reserves the right to reject any or all proposals or cancel the bid without assigning any reason thereof. 현행대 177/대체 대화하는 72020-13-교체 개설 등 177/대체 대화하는 72020-13-교체 개설 등 177/대체 대화하는 72020-13-교체 개설 등 177/대체 대화하는 1 23.7.2020

#### In future, solar & wind will be everywhere you look

BLOOMBERG London, July 24

TO MY FOUR-YEAR-OLD son, electricity must seem magic-this invisible stuff that comes out of the wall sockets to power the fridge, to light up the TV, or run his favourite toy, an electric piano. He has

no personal experience of where it comes from, even if he does see the wires on which it travels.

which it travels.

Many of us never see how electricity is made. This is because most off it is generated in a relatively small number of very large power plants, situated miles away from where we live and work. However as we transition to a zero-carbon economy, wind and solar power is going to get a whole lot more visible. In time, power stations are likely to become as ubiquitous and familiar as gas stations are tolks.

tical panels or turbines. This means, for renewables, bigger tical panes or turnines. Inis-means, for renewables, bigger is not always better. Whereas conventional round-the-clock coal plants only run efficiently at scales of at least 500 megawatts, large wind and so-lar projects typically topout in the hundreds of megawatts. So we'll need a lot more of them to generate the same amount of energy, And because the sun doesn't always shine and wind doesn't always shine and wind doesn't always blow, each megawatt of capacity pro-duces less electricity than the

around 1,500 megawatts of wind capacity, and about 3,000 megawatts of solar. Plus, wind and solar capacity take up far more physical space than traditional power plants-7.6 hectares per megawatt for wind and, according to a new analysis published this week by BloombergNEF, 1.7 hectares per megawatt for solar. As of now, around 650 gjawatts of solar and 644 gjawatts of solar and 644 gjawatts of solar and 644 gjawatts of wind have been commissioned worldwide, accounting for around 8% of global electricity generation and covering around 52,000 square kilometres. On shore wind and solar will supply 48% of global electricity performance wind and solar will supply 200 square kilometres. On shore wind and solar will supply 200 square kilometres. But let's say all road vehicles and buildings were to go electric. To keep emissions in

line with the 2 degrees Celsius warming limit prescribed by the Paris climate agreement, the power sectorwould have to deploy around 26,000 terawart hours of wind and solar generation by 2050, which would cover a land area the size of Turkey. The land-use impacts in this scenario differ by country. It would take less that the property of the proper by country: It would take less than 1% of land in the U.S., China, and India, but as much as 7.4% in Germany.

China, and more, or a series of a 7.4% in Germany.

Let's go even further and assume that the entire economy gets to net-zero emissions, including hard-to-abte sectors such as steel-making and aviation. To do that, we'll probably need another zero-carbon solution. One option is hydrogen.

## Tesla designer re-engineers the chocolate chip

BLOOMBERG July 24

REMY LABESQUE HAS a compelling day job: He's senior industrial designer at Tesia Incin Los Angeles, But for threeyears, he's worked on a side project that's enviable to people out-side. Elon Musk's universe. Labesque has re-engineered the classic chocolate chip because, he says, the 80-year-old teardrop shape is ill-sufited to its function.

teardrop shape is Ill-sufted to its function.

The chip isn't a designed shape,' says Labesque.' It's a product of an industrial manufacturing process.'

The baking standby is optimised for mass production, not for baking in cookies whose broad surface area is better suited to maximise taste and melf-in-your-mouth texture. Labesque's redesign for artisanal Dandelion Chocolate is a

square, faceted pyramid, kind of like a flattened diamond. Two edges are thick, and two exceedingly thin, for even more textural pleasure.

exceedingly thin, for even more textural pleasure.

The Dandelion chip project was born of necessity, Roywars, the San Francisco chocolatier's executive pastry the Lisa Vega had been hand piping quartersized chocolate diss for her top-selling "Maybe The Very Best Cincolate Chip Cookle". It best Cincolate Chip Cookle if the content of the Cookle of th

around \$1.70 million. in 20.17, Labesque was enlisted to help. Masonis was already in the process of building a \$10 mil-lion-plus Wonka-esque facility,

which opened in 2019, to upgrade the company's chocolar production. The tempering line alone, which was eventually outfitted to the company of the company o

# dishman

**DISHMAN CARBOGEN AMCIS LIMITED** 

Cestact Person: Na. Strimin Dane, Company Secrety & Complaince Officer
POST SILY-BACK PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR THE ATTENTION OF EQUITY SHAREHOI
OWNERS OF EQUITY SHARES OF DID SHARAN CARBOOKER AND IS LIMITE
COUNTER' Part Buy-back Public Amountement? of colosion of complaince, with the provisions of Registration
counters' Part Buy-back Public Amountement? of colosion of complaince, with the provisions of Registration
counters' Part Buy-back Public Amountement
of Counters' Part Buy-back Public Public

reconstructed aftern discours of a color product product of the Child Centuric product product of the Child Centuric product of the Child Centuric product pro

Particulars		es on the date of seascement	Post Buy-back	
Pareculars	No. of Equity Shares	% of the equity share capital	No. of Equity Shaces	% of the equity share capital
Promoters and Promoter Grossp	9,90,96,898	81 40	9.90,98,898	63.21
oreign Investors (including Non Resident Indians, Fils, FPIs and Foreign Multial Funds)	1,43,26,704	8.88		
Financial Institutions/ Banks/ Mutual Funds promoted by Banks/ Institutions	2,47,16,381	15.31	5.76.86.197	36.79
Others (public, public budies corporate etc.)	2,32,54,289	14.43		1
Total	16,13,94,272	180.00	15,67,83,095	100,00

LOFE TO THE RUY. BACK

VIVRO

VUVRO FINANCIAL SERVINCES PRIVATE LIMITED

Vivro Nouse, 11 Strasto Colony, Opt. Shindbis Shripping Center,
Palik, Annoclabats, 200007, Cigasta Linitary

Palik, Annoclabats, 200007, Cigasta Linitary

Tel No.: +91-72-4040 4242; Fast No.:-91-72-6256 50570

Centest Presentatio; 39: 402-679 Porefo | Email: investoral@vinto.ort | Website: evwir sivro.ort

Self Registration No: 18/00/00/10122; Variating: Permanent (DIRL UST 12/06); 1958/F10/02/9182

ECTOR'S RESPONSIBILITY
Frequency 2019 of the Buy-back Regulations, the Broard of Directors of the Company accepts full responsability for the externation of back Policy Americanisms and does not contain any reliable Policy Americanisms and does not contain any reliable Policy Americanisms and does not contain any reliable policy Americanisms and desired dischard of Distance Carbony America Limited
and no backed if the Board of Distance or Distance Carbony America Limited

1	S6/-	Sd/-	\$d/-
1	Arpit J. Vyas	Deolooti J. Vyas	Shrima Dave
1	Global Managing Director	Whole Time Director	Company Secretary & Compliance Officer
1	DIN: 01540057	DIN: 08084875	(Membership Number: A29292)
1	Place: Armodaliad		Bates tota 24 2000

60 AA A



# DIFFICULT TIMES CALL FOR

The pandemic has hit the life & economy hard, which has called for more resilience and natience. With everlasting hone, prudence & diligence, once again AU Bank has shown sustainable results. With your confidence & support, AU Bank has faced the tough times responsibly while continuously enhancing banking services foryou.

CRISIL e INDIA RATINGS e ICRA e CARE

**AU Small Finance Bank Limited** 

Office: 19-A, Dhuleshwar Gorien, Ajmer Rody, Jaiper 202001, Rejad 1: 491-141-4710060, Fax No.: +97-141-4710090 Website: www.aubari

Statement of Unaudited Financial Results for the guarter ended June 30, 2020

116,633.31 49939263 and Extraordinary April; 91,397,92 Not Profit for the period after tax (after Exceptional and Extraordinary Refer Note 2 Refer Note 2 30.640.76 20.239.84 30,412.33 407,268 78 287.053.34 40726878











©1800 1200 1200 www.aubank.in





# हैदराबाद मुठभेड़ : सिरपुरकर आयोग का कार्यकाल छह महीने बढ़ा

नई दिल्ली, 24 जुलाई (भाषा)।

सुप्रीम कोर्ट ने हैदराबाद मुटभेड़ कांड की जांच के लिए गठित न्यायमूर्ति सिरपुरकर आयोग का कार्यकाल शुक्रवार को छह महीने के लिए बढ़ा दिया। पशु त्रिसपुरकर आयोग का कार्यकाल चुक्रवाद को छक्त मार्ने के लिए यहा विशा पणु चिकित्सक से सामृहिक बलात्कार के बाद उसकी हत्या के आपियों को पुलिस मुठफेड़ में मीत को जांच के लिए न्यायालय ने गीरी अयाला के पूर्व न्यायाशीय सीएस सिसपुरकर की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय जांच आयोग का गठन पिछले साल दिनंदर में किया था। प्रधान न्यायाशीय एस एस एस प्रधान न्यायाशीय एस एस सिसपुरक की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय जांच आयोग का गठन पिछले साल दिनंदर में किया था। प्रधान न्यायाशीय एसण्य बोचकें

प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे, न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामासब्रमणियन के पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जांच आयोग के आवेदन पर विचार के बाद उसका कार्यकाल छह महीने ाज्यार के बांध उसका कावकाल छह महान बढ़ाने का आदेश पारित किया ताकि वह अपना काम पुरा करके अंतिम रिपोर्ट पेश कर सके। शीर्ष अदालत द्वारा पिछले साल 12 दिसंबर को गठित इस जांच आयोग के पिछले साल छह दिसंबर को हैदराबाद में तेलंगाना पुलिस ने एक मुटभेड़ में इन वारों आरोपियों को मार गिराया था। पुलिस के अनुसार वह छटना सबेरे करीब सब्दे बजे उस समय हुई जब वह पशु विकित्सक के साथ सामुहिक बलात्कार और हत्या की जांच के सिलसिले में इन आरोपियों को घटनास्थल पर ले गई थी।

अन्य सदस्यों में बंबई हाई कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रेखा सौंदूर बाल्दोता और सीवीआइ के पूर्व निदेशक डीके कार्तिकरन शामिल हैं। इस आयोग को छह महीने में अपनी रिपोर्ट न्यायालय को सौंपनी थी।

अपनी रिपोर्ट न्यारालप को तीपनी थी।
—गयालप को शुकरार को सूचिर
किया गया कि कोविड-19 महामारी के
कारण पेश आई अगरिवर्ग पोरिज्यितमें
की वजह से आगोग जोंच का काम पूरा
नहीं कर सका। पुलिस ने चारों आगीरियाँसोहम्मद आगिफ, चिताकुँ ता
चे-मोकेमयु जीए शिवा और जीलू
नतीन-को पिछले साल नवीबर में पशु
विकित्सक सहिला से मासूक्क बलातकार
करने और उसकी हत्या करने के आरोप में

गिरफ्तर किया था।
पिछले साल छह दिसंबर को हैदराबाद
में तैलगंगा पुलिस ने फक मुटमेड़ में इन
बारों आरोपियों को मार गिरासा था। पुलिस
के अनुमार कह फटना सर्वरे करीय साई
बत्ते उस समय हुई जब वह पशु
चिकित्सक के साथ सामृद्रिक क्लालका
और हरण बत्ते जांच के शिरासिस्स में इन
आरोपियों को घटनारगल पर ले गई थी।
ये आरोपियों को घटनारगल पर ले गई थी।
ये आरोपियों को घटनारगल पर ले गई थी।
ये आरोपियों के पटनारगल में निकट उसी राष्ट्रीण
का गांनी पर पुलिस को गोलियों से
मारे गए जहां 27 वर्षीय पशु चिकित्सक
का जांती हुई अवस्था में शब मिला था।
आयोग के सचिव के माध्यम से
न्यासालय में तायर आरोदन में कहा गवा

वा कि अपरिकार्य करणों से जांच आयोग प्रापं अदालत हारा निर्धारित कार्य गती के अनुरूप काम पूरा नहीं कर सका है। इसलिए जांच आयोग का कार्यकाल छह महोने बढ़ाने का अनुरोध किया जा रहा है। आयोग ने कहा कि उसकी पहली वेडक हैररावारत में इस साल तीन फरायों केत हुई थी। आयोग को अभी तक इस घटना में शामिल पुल्लिकार्कियों और तीन मृतकों के परिजनों स्पित विधिम्न व्यक्तियों से 1,365 हलफनामें मिले हैं। आयेदन में कहा गाया है कि इस घटना में शामिल पुल्लिकार्मियों के हलफनामें 15 जुन को ही मिले हैं। आयेदन में कहा गया है कि उसे मिला 1365 हलफनामों में से लाभा सारे ही तेलुपू भाग में हैं और मारे स्वार्ध को अंग्रीयों से अनुवास कराने के बाद उसका सत्यापन कराया गया है। आयोग के अनुसार उसकी अगाली वेडन 23 और 24 मार्च को हैररावार में होनी थी रेकिन कोशिंड-19 को वजह से इन्हें

कार्यक्रम की घोषणा ः चुनाव आयोग नई दिल्ली, 24 जुलाई (भाषा)।

चुनाव आयोग ने शुक्रवार को कहा कि विधानसभा और लोकसभा भीटों के उपचुनाव करवाने के कार्यक्रम के बारे में 'उपयुक्त समय' पर घोषणा की जाएगा। देश में विधानसभा की 56 सीटों और लोकसभा की एक सीट के लिए उपचनाव होना है।

हस्ता./ साथेज ग्रांतविक प्रमंध निदेश्य (DIN-00083638

हिन्दुस्तान एवरस्ट टूल्स लिमिटेड CIN: L7489DL1962PLC003634 पंजी एवं एच.ओ. 46, वेहिल कैंग्स, 4या तल, नेहरू ज्येस, नर्व दिल्ली-110019

+0, वहिल चै --व, नहरू प्लेस, नई दिल्ली-1: Ph.: 91-11-46579476 mail: admin@eve--

eather বিশোস্থ মা মান্তানিৰ আই গাই

DELTA INDUSTRIAL
RESOURCES LIMITED
Topic to Topic to Tall, The First, Appende
The Committee of the Commi

Final at all middle eventual control of the contr

भी उपलब्ध है। हिन्दुस्तान एक्सेस्ट दूल्स लिमिटेड के लिखे हस्तार/-

हस्ताः / -सोनम गुप्ता कम्पनी संचित्र

परिस्ताचकः, तेन्तुवे कन्युनेवेकनः ह अर्हवी पंक्षे सं IBBUTPA-001/IP-P00055:2917-18/1 पत्रायाः का काः अविविध्य तिर्वास्त्रकः ip.century.communicationSgemail.com, vive.ski vi % % वर्षे यस्, ग्री मास, नेवावी गुक्का पीतापम्

## जयप्रकाश एसोसिएटस लिमिटेड

की आई एवं : L'41061F1985F1.CD19017 विकास कार्यावार : संवार 129, नीवार – 20104. त. म. मुख्या : 401(120) 2470800 कार्यावार कार्यावार : सेवार 129, नीवार – 20104. त. म. मुख्या : 401(120) 2470800 कार्यावार कार्यावार : पेपा (सकत, 6.), सत्ता लीका, सर्वात विकास वर्ष विकास – 190057 प्रमाण : 491(11) 482000. कींग्रा : 361400. कींग्रा : 361400 केंग्रावार : www.faindia.com; ई नीत : jai.inventor@jaindia.com

सूचना सेची (मूर्वफब्दता बाध्यलाए और फर्क्टोफरण) विनिचम, 2015 के विनिध्स 47 को विनिधाम 28 में खाव पहले हुए, से संपन्ने में एसद्श्वात सृषिक किया जाता है कि कम्मार्च के प्रिक्त भाष्यक से वीक्ष्य मुंग्राम्स 31 अपूर्व 2020 में अन्य विवार्च संक्रिय, 50 पट्टा-2020 को स्माप्य हुए विमान्नी के अम्मार्च के अन्यभिक्त पहला वर्ष संक्ष्य विद्यास परिमान्त्री पर विचार और स्वीकार अस्ते हेनु होनी निवारित हुई हैं।

हतु होना मनागरत हुई हो । अन्य स्त्रानकारी कम्पनी की वेबसाईट यानि www.jašindia.com पर तथा रटीक एक्सफेज की वेबसाईट यानि www.nseindia.com एथ www.bseindia.com पर भी उपस्त्राव है।

कृते जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड

एम.एम. सिब्बल शंपुतल अध्यक्ष एव कम्पनी सचिव JAYPEE . ५०० र कम्पनी सविव सदस्थाना क्रमांक एकसीएस –3538 दिनांक: 24 जुलाई 2020

#### प्रपत्र ए सार्वजनिक उद्घोषणा

1		
	कार्योरेट ऋगवारक का नाम कार्योरेट ऋगवारक के निगमन की तिथि	आईटीण इन्टीवेटेड समिसिस प्रातिः
3.	यह प्राप्तिकरण जिसके अंतर्गत क्यांचीर ऋगध्यरक निगमित/पंजीकृत है	आरजेमी- दिल्ली
	खापीरट पश्चान संख्या फापीरट ऋगशाख का सीमत दापिता फानान संख्या	
	तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पत	103, एकएफ, नेताजी पुगाब व्यर्ग, एफ्ट्रेनेड कामार, प्रक चैम्बर-6, दरियागंज, नई दिल्ली-110002
	कापीरेट ऋगवारक के संदर्भ में दिवाल आरंभ होने की तिथि	
7.	नम्बर त्या पंजीकरण संख्य	मामां डम्पा जैन, पक्षा पंत्री, कार्योगता डाठ, परमा दावर, पोनेदा परेस, नर्षे रिस्पर्क-110008 इमेल: info@jainmadpartners.com टेशीफोन नं: 9810265565, 011-41536635, 01 441536637 पंगी, सं, IBBI/IPA-002/IP-N00187/2017-18/105
8.	दारी जमा सनने की अतिम तिथि	21.8.2020

एतरहारा पूर्वित किया जाता है आईटीए इन्टीमेटेड सर्वित्सन आ.लि. ने 23.07.2020 को ए पीसकापन सुरू किया है। पारहहारा आईटीए इनीमेटेड कॉर्वरेस प्र.श्रिः के प्रटेकासफों को निर्देश दिया जाता है कि तुं हो में वर्वित पने पर परिसमाण्ड के पास 21.8.2020 को या डससे पूर्व अपने दाने का प्रमा

तस्या पंजी: सं. IBBI/IPA-002/IP-N00187/2017-18/10

## **dishman**

#### **DISHMAN CARBOGEN AMCIS LIMITED**

Corporate Identify Number (CIN): 1.7490602007PLC051338
Registered Office: Dishhard Corporate Nava: hoost-Ropal Road, Artist, Almostatist - 300.058, Gigierat, India
Philinet - 9.1-277. 420102124 | Emeth gravinosagificationergroup.com | Walkballe: vervio dishard-project.
Cantel Philinet - 19.1-277. 420102124 | Cantel Philinet - 19.1-277. 420102124 | Cantel Philinet - 19.1-277. 420102124 | Cantel Philinet - 19.1-277. 42010214 | Cantel Philinet -

## POST BUY-BACK PUBLIC ANNONCEMENT FOR THE ATTENTION OF FOURTY MARKHOLDERS, BENEFICIAL OWNERS OF EQUITY SHARES OF DISHMAN CARBODEN AMEIS LIMITED

DOMESTICS PROTECTION STREETS UNDERSTOOM STREETS AND ST

Set 19-40-CA.

BUT-SACK.

BUT-SACK or investiga as assigned in the reduce recordance in the Set 19-40-CA.

BUT-SACK or investiga as assigned in the reduce recordance personal process. In the set of control of the set of control of the set of

2.1. 46.1.177 Equity Shares (representing 2.86% of per Buy-back paid equity share outpiled in the Company) were bought back under the Buy-back at an alverage print of 4.7.36 per Equity Shares per early which the Equity Shares were bought back was depended on the pince guided on the Shock Exchanges. The print of 4.7.36 per Equity Shares per early which the Equity Shares were bought back was depended on the pince guided on the Shock Exchanges. The was briefly the print of 4.7.36 per Equity Share Shares per Equity Shares shares are being the shares per early share

	The state of the s									
SE.	Particulars	Pre Buy-back as on the date of Public Announcement		t Post Buy-back						
No.	4 en incimus	No. of Shares	Amount (t)	No. of Shares	Amount (*)					
1	Authorized Share Capital	17,62,56,000 Equity Shares of ₹ 2/- each	54,05,00,000	17,02,50,000 Equity Shares of ₹ 2/- each	34,05,00,000					
2	Issued, Subscribed and Paid-up Capital	16.13.94,272 Equity Shares of ₹ 2/- each	32,27,88,544	15.67.83,095 Equity Shares of ₹ 27- each	31,35,66,190					

3.2. The stransholding pattern of the Company, pro and post Buy-back, is as under

Particulars		ts on the date of incoment	Post Br	uy-back
Pagicums	No. of Equity Shares			% of the squity share capital
Promoters and Promoter Group	9,90,96,898	51.40	9,90,96,898	63.21
Foreign Inventors (including Non Resident Indians, Fills, FPIs and Foreign Mutual Funds)	1,43,26,784	8.88		
Financial Institutions/ Banks/ Mutual Funds promoted by Banks/ Institutions	2,47,16,381	15.31	5,76.86,197	36.79
Others (public, public bodies corporate etc.)	2,32,54,289	14,41		
Total	16 12 04 272	100 00	15 57 83 995	100.00

MANAGER TO THE SUP-GACK

WORD FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED

Work House, It Shauld Collect, Opp. Servicibus Shopping Center,
Pelan Memoritation — 3800017, General traces

File Res - 49-179-4040 (24.2) | Fise Mer. - 19-179-5855 (957)

Chatch Pervanish? Mr. Briston Pervanis | Breadth Investoricity Annual Pervanish | Services Pervanish Pervan

water-tern a mean-function.

As per Regulation 24(fi)(a) of the Bey-back Regulations, the Board of Directors of the Company accepts that responsibility for the information contained in this Pos Bey-back Policy insurpresented and confirms that stach document containe fore; factured and material information and does not contain any insistence and one behalf of the Board of Directors of Distinuer Carbogue Associa Limitude.

l	Sel/-	\$d/-	Sti/-
	Arpit J. Vyas	Deohooti J. Vyas	Shrima Daye
.1	Nobat Managing Director	Whole Time Director	Company Secretary & Compliance Officer
	D94: 01540057	DIN: 00004876	(Membership Number: A29292)
Place: Ahmeda	bad	***************************************	Unite: July 24, 2020
			TOTAL STREET,

## तृतीकोरिन मामला : जांच कर रहे दो सीबीआइ अधिकारी कोरोना से संक्रमित

मुद्दे, 24 जुलाई (भाषा)।

त्तीकारिन में अपनी मोबाइल फोन की दुकान की जांच कर रहें सीवीआइ दल के चे और तहक जे ला ला जाया माया साध्य-कृतम थाने अधिकारिय में प्रक्राय की जांच कर रहें सीवीआइ दल के चे और तहक जे ला ला जाया गया। साध्य-कृतम थाने अधिकारिय में पूकाव्यार को कोरोगा से के मोला की जोंचे कर रहें सीवीआइ दल के चे और तहक जे ला ला जाया गया। साध्य-कृतम थाने संक्रमण की पूष्टि हुई है, वहीं एक आरोगी पिटाई की थी, जिसे तुतीकोरिन के कोविलापट्टी पुलिसकार्मी के संक्रमण में सीवीआइ का कार्यालय में सह आयास में दिल्ली से आए बार अधिकारिय में में एक अस्तिताल के ने कार्या कर उन्हें के से सीवीआइ अधिकारियों के कोरोगा से संक्रमणमुक्त किया गया है। अधिकारियों के के बाद इस परिसर को सील कर के संक्रमणमुक्त किया गया है। अधिकारियों ने कहा कि मामल में गिरस्तार और केंद्रीय जेल में बंद पुलिसकार्मीयों को अधिकारियों ने कहा कि मामल में गिरस्तार और केंद्रीय जेल में बंद पुलिसकार्मीयों को अधिकारियों ने कहा कि मामल में गिरस्तार और केंद्रीय जेल में बंद पुलिसकार्मीयों को स्वाप्य पा भीवीआइ को कार्याल पा नी साध्य-कृतम पुलिस ने वीनों पिता-पुत्र को विल्ड साध्य प्रकार में में प्रमा गया है। अधिकारियों वा सीवीआइ को कार्याल प्रकार में में में मान गया है। अधिकारियों को कार्याल में बंद पुलिसकार्मीयों को कार्याल में बंद पुलिसकार्मीयों को कार्याल प्रकार में में में मान हो है। साध्य-कृतम पुलिस ने वीनों पिता-पुत्र को 10 जुलाई को मौके पर पहुंचा कर अहम कोरीसिक केंद्रीय उन्हें के कार्य साध्य प्रकार के 10 जुलाई को मौके पर पहुंचा कर अहम कोरीसिक साध्य प्रकार के 10 जुलाई को मौके पर पहुंचा कर अहम कोरीसिक केंद्रीय साध्य प्रकार के 10 जुलाई को मौके पर पहुंचा कर अहम कोरीसिक केंद्रिक साध्य प्रकार के 10 जुलाई को मौके पर पहुंचा कर अहम कोरीसिक साध्य प्रकार के 10 जुलाई को सीवी केंद्रिक साध्य प्रकार के 10 जुलाई की सीवी केंद्रिक साध्य प्रकार के 10 जुलाई की सीवी केंद्रिक सीवी के 10 जुलाई की सीवी के 10 जुलाई की सीवी केंद्रिक सीवी के 10 जुलाई की सीवी

### संक्रमित महिला ने दिया बच्ची को जन्म

अगरतला, २४ जुलाई (भाषा)।

त्रियुप में कोरोना संक्रमिन 23 साल की महिला ने कोविड अस्पनाल में एक बच्ची को जन्म दिया है। मो और बच्ची को हालत रियर है। अस्पताल के अधिकारियों ने यह जानकारी दी। प्रश्निम त्रियुप हिल के सूर्यामणिनगर गांव को नियासी सुरिनात दास चार दिन पढ़ले और गांवों मेमोरियल अस्पनाल में मोध्यक्त को जांच के दौर न कोवन विषाय है। संक्रमित पाई गई थी। रेजीडेट में इंडिक्स अधिकारी (आरप्पज़ो) डॉ. विवाद न कोवन विषाय में संक्रमित पाई गई थी। रेजीडेट में इंडिक्स के के लिए सिक्कि तार्वीय के उत्तराव के स्थान के अधीक के देखा की मिल के कि स्थान के अधीक के देखारी में स्थान स्थान के अधीक के देखारी में स्थान के अधीक के स्थान के अधीक के स्थान के अधीक के स्थान के स्थान दिया। मां और चच्ची दोनों को हालत रिसर है। अक्कि अफिक के स्थान के अधीक के स्थान के सम्बन्ध के जम्म दिया। मां और चच्ची दोनों को हालत रिसर है। जच्ची से स्थान के लिए पढ़िक ती है। के स्थान के अधीक के स्थान के स्थान दिया। मां और चच्ची दोनों को हालत रिसर है। चच्ची के जम्म दिया। मां और चच्ची दोनों को हालत रिसर है। चच्ची के जम्म दिया। मां और चच्ची दोनों के हालत रिसर है। चच्ची के जम के लिए पढ़िक ती है। को की स्थान के स्थान के कि एक के कि इंडिक के स्थान के स्थ

का जन्म (स्था 11 आ उंदर तथ्या दोना का सतता स्थर है। चल्ची के नमुने शेर तथ्या दोना का सतता स्थर एकमण की जांच के लिए फो गए हैं। वे अलग-अलग बार्ड में भर्मी हैं। 'राक्य में किसी वल्खे को जन्म देने वाली कोरोना संक्रमित शुचित्रा दास पहली मरीज हैं। उन्होंने वताया कि गर्भवती महिला के संपर्क में आए एरिवार के सरस्यों और रिमेदियों को घर पर पृथकवस में रहने को कहा गया है।

# 'केवल भिखारियों को दोष देना ठीक नहीं'

मुंबई, 24 जुलाई (भाषा)।

बंबाई हाई कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि कीयिड-19 के प्रसार को रोकने के लिए सामाजिक दूरी और अन्य नियमों का पालन न करने के लिए केवल भिखारियों को ही दोष नहीं दिया जा सकता क्योंकि इन नियमों का पालन तो अभिजांत्य वर्ग के लोग भी नहीं कर रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्त और न्यायमूर्ति माधव

टिप्पणी की।

जब पूरा रेस अठित समय से गुजर रहा है तब
याधिकाकर्ता ने विंता जताई थी कि भिखारी
केवल भिखारियों को निशाना बनाता ठीक नहीं
लोगों से भीख मांगते समय समार्गीजक दूरी और है। मुख्य न्यायाधीय दत्त ने कहा, 'केठल मास्क का ध्यान नहीं रख रहे हैं। द्राव्यटकर के भिखारियों को ही दोष क्यों दिना जाए? सम्य बकोल शेखर जाताप ने आदालत को बाताया कि और अभिजाल बारों के लोगा भी समार्गीजक दूरी ऐसे लोगों से कोविड-19 फैलने का खतरा ज्यादा

जामदार के खंडपीठ ने पुणे के एक निवासी है क्योंकि ये किसी नियम का पालन नहीं कर रहे।
व्यानदेश्वर दरवटकर की ओर से वागर एक इस पर पीट ने याणिकती को सेवेदनशील
नतीत याणिका पर पुनवाई के दौरान यह
दिप्पणी की।

प्राचित्रकारणों ने जब पूरा देश कठिन समय से गुजर रहा है तब केवल भिखारियों को निशाना बनाना ठीक नहीं

अगटनीय स्टेट बैंक वामानायत माहित विकासी वामाना-१. पिराड प्रधान तथा, 13. कारापानक तोड़, वार्च बिलावी-110015, फोला 15419777, 1541977 हो-मेला को 55160हुँक प्रधान तथा, 13. कारापानक तोड़, वार्च बिलावी-110015, फोला 15419777, 1541977 हो-मेला को 55160हुँक प्रधान तथा, 13. कारापानक तथा, 13. काराप

विकार कारणालामा में कारणा पर प्राचन कर हैं। कि में कहें के कि को के कि में के कि कि माने के कि में कि माने के कि माने के कि में कि माने के कि माने कि माने के माने के कि माने कि माने के माने के कि माने कि माने के कि माने कि माने के कि माने कि

क्रीपसईटर का नाम/ पार्टनर्स/गारंटर्स/ सम्पत्ति गासिक का नाम	बंधक /प्रस्कृतित सम्पति का विचरण	बकाया राशि	मांग सूचना की शारीख	क्ष्मता की तारीखा परितर जारा 53%) व रक्षम भारा 14
जी देकेन्द्र सार्ग, जी अपूर्व सार्ग, योगींद्र शार्मी वेशनी विद्यागर्थी क्रांबोडिटीक इसके पार्टिगर्य के साध्यम से वैश्वनी विद्यागर्थी कार्य एवं शांस इसके पार्टिगर्स के माध्यम से	कर्ग गान, किशमिल ताशीवपर के ले-जावर	10000	92.67.2918	21.07.2020
की देवेन्द्र समी की बब्दून शर्मा की घोगेंद्र शर्मा वेसले विकासनी खूबस् एक स्टेबर्स पार्टनर्स के माध्यम से	वर्ग गळ, जिलमिल ताहीपपुर के ले-आउट पहल के जंतर्गत, औद्योगिक क्षेत्र, जीटी रोड.	प्सार विशास 09:11:2017 से 2013 और जीगल	92.07.2918	21.07.2020
की वेकेन्द्र सन्ते की योगेंड समी वैतान विवासमंद्रिक कोतियोज पार्टनर्ज के गावाम से कैसार्स की के इसेन्टिकाल पार्टनर्ज के मात्रक से	वर्ग गज, किलमिल ताबीरपुर के ले-काउट प्लान के कंतर्गत औरदेशिक केन, पॉटी रोड, शावदर, दिल्ली-का में निका, वट सम्बन्धि	श्वास दिवांक 09.11.2017 में ब्याज और जीगान	02.07.2018	21.07.2020
जी रजिन्दर कुनार शर्क जीवती शरी शर्का जी विदेक शर्मा जी शर्कश शर्मा	वीकट्टी भूमि एवं शवन जोकि ए11 (ए10	प्राप्त श्रीमधिक	27.11.2018	21.07.2020
	पार्टनी गारिक्ट आप्ता के प्राचित गारिक्ट आपता की होत्र कार्य की कर्म कार्य के क्ष्म कार्य के क्षम कार्य के क्षम कर्म कर्म कर्म क्षम क्षम क्षम क्षम क्षम क्षम क्षम क्	प्राण्डिय निक्रण का मान्य प्राण्डिय निक्रण का मान्य प्राण्डिय निक्रण का मान्य प्राण्डिय मार्ग का प्राण्डिय मार्ग का प्राण्डिय मार्ग प्राण्डिय मार्ग का प्राण्डिय मार्ग का प्राण्डिय प्राण्डिय प्राण्डिय का प्राण्डिय का प्राण्डिय का प्राण्डिय प्राण्डिय के अध्यय के प्राण्डिय प्राण्डिय के अध्यय के प्राण्डिय प्राण्डिय के प्राण्डिय का प्राण्डिय के अध्यय प्राण्डिय प्राण्डिय के अध्यय के प्राण्डिय प्राण्डिय के अध्यय के प्राण्डिय के अध्या के प्राण्डिय के अध्यय के प्राण	प्राण्डिय निकास का नाम प्राण्डिय (१००० के १००० के १०० के १०	प्राण्डिय स्विष्ट का मुख्य स्विष्ट के स्वाप्ट के स्वाप

विनांक : 21-07-2020 स्थान : विस्ती प्राणिकृत अधिकारी, मारतीय स्टेट बैंक Bank of Bacoda OF पास्ताः सेवटर ५१. नोयश क्या पूचना (अवल सम्पत्ति हेतु (निथम ८ (१))

देशा है. स्विधान के प्रशास के प्रशा

#O		बंधक अवल सम्पत्ति का विवरण	यांग जीटिस की तिथि	बकाया धनराशि
1,	क्रणकर्वाः -	लींद के सभी दुकके जीन पाणील लगोंद न 17-की प्रथम ताल पीछा की र	TVW 02.03.2020	₩ 498312734 (F
	<ul> <li>शिवती यांना देवा जन्म सुमन सुमार और भी। यांगन समार एक फागन नाम झा, नियाती प्लॉट मं।</li> </ul>	नेहर गार्डन नेपादी एकादेनसम्, समय ग्रम्भी हा उत्तरक हो	क्यों की विधि	जनसङ्ग दक्का विभागती हाउ साथ और प्रकार के प्राथ
	15-की अबस ताल पीठरें की तारक गोवल मार्चल नकादा एकसटेनरान, उत्तान नगर, बिहरती -110020	atboge,	21 07 2020	पैर्व कंत्रत) प्रशाबी व्यक्ति । बन्य कार्रे १८ १६ ४०० से
	समास्कार्त	/ वास्टीकर्णा / सुक्रम पक्ष विद्याल की गिरवी कई सुद्	लु <sup>ण</sup> विवरण	
	दिनांक- 23.07.2020	स्थान-नोवर्ध ८	mile mile	कत अधिकारी

(Ahmedabad) S

www.readwhere.com

Location	Asset / Area	Block No.	(Rs. Crore)
Kanpur	Land & Building at C-10, Site-II & A-1, Site- III, Panki industrial Area, Kanpur, UP (Area 67.56 acres)	1	231.00
Kanpur	Land & Building at C-10, Site-II, Panki Industrial Area, Kanpur, UP (Area 15.21 acres)	2	52.00
Kanpur	Land & Building at A-1, Site-III, Panki Industrial Area, Kanpur, UP (Area 52.35 acres)	3	179.00
For Details Contact: C	to apply: Monday, August 10, 2020, Date of E-Auction: : Visit www.lmlworld.in and https://lncitauction.auctiontige A. Anii Bhatia, Tel No. 011-41086313, Mob. No.: +91 9 Leuction@mail.com	r.net	

٥ ١	PRADIP OVERSEAS LIMITED Regt. Office: 104/105/106, Chacharwald, Vasna, Opp. Zydus Cadila, Sarkhej Bawk Highway, Changodar, Ahmedabad-382213. Weblic way pradpoversast.com Banki Injanag Padpoverseas.com Enal Injanag Padpoversast.com FOR THE GUARTER AND YEAR ENDED 31 ST MARCH, 2020 (Rs. In Lecs)							
Sr		Quarter	Ended	Year E	nded			
No.	Particulars	31-03-20	31-03-19	31-03-20	31-03-19			
1 2	Total income from operations (net) Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary items)		2,208.27	4,338.64	10,100.08			

ŝr					
No	Particulars	31-03-20	31-03-19	31-03-20	31-03-19
1 2	Total income from operations (net) Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and / or	1,655.31	2,208.27	4,338.64	10,100.08
3	Extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period	446.17	(557.38)	(1,349.47)	(567.49)
	before Tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items)	446.17	(557.38)	(1,349.47)	(567.49)
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and /or Extraordinary items)	(1.581.91)	5.966.32	(3.107.31)	1,710.84
5	Total Comrehensive Income for the period (Comprising Profit' Loss) for the period (After Tax) and Other	,,,,,,,	.,	(0,1010)	.,
	Comrehensive Income (After Tax)	(1.578.31)	5,973.90	(3,103.71)	1,718,43
6	Equity Share Capital	4.844.02	4.844.02	4.844.02	
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the				,
8				(93,506.31)	(90,402.50)
	(of Rs.10/- each) (For Continuing and Discontinuing Operations)				
	(a) Basic	(3.26)	12.33	(6.41)	3.55
	(b) Diluted	(3.26)	12.33	(6.41)	3.55

Note 1 (1) The above is an extract of the detailed formst of Sandadock Author Renacial Results of Quarterly and Year anded an 3.0.3.220 (filled with the Stock Exchanges under Regulation 3 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulations, 2015. The full format of the Quaterly Disclosure Requirements (Regulation) 25.0.5 the full format of the Quaterly on the Stock Exchange Weakles (www.xesindus.com) were under the Company Accounts have been clearfied as Nor Performing Aces (PAP) by Companya Accounts have been clearfied as Nor Performing Aces (PAP) by Dorrowing Foams. During the period under review, no provision has been made for such interest in the books of accounts of the Companya Accounts on the books of accounts of the Companya and to that extent banks to make the period under review, no provision has been made for such interest in the books of accounts of the Companya and to that extent banks to make the such as the control of the Companya and count of the Aces of the Companya Accounts of the Companya Accounts of the Company Accounts the Interest in a Management Paris and Count in their books. For the purpose of companing Oreas and Aces accounts the Aces and Company Accounts of the Company Accounts the Interest in a Management Paris Country Aces and Ace

recorded in Memorandum, the Company has not booked expenses of Intert in the Books of the Company.

For and on behalf of the Board of Director Sd1- Pradip J, Karla Date: 23rd July, 2020

DIN No: 000123748

S1. No	Particulars	Current Quarter Ending	Year to date Figures	Correspo- noting 3 morates anded in the provious year	Enting	Year to date Figures	Correspo- nding 3 months ended in the previous year
		31-Mar-20				31-Mar-20	31-Mar-19
1	Total Income from Operations	439.48	1,512.43	124.20	439.48	1,512.43	131.52
2	Net Profit / (Loss) for the period						
	(before Tax, Exceptional and/or						
	Extraordinary items#)	(23.91)	5.49	(7.12)	(11.08)	17.75	(30.42)
3	Net Profit / (Loss) for the period						
	before tax (after Exceptional			1			
	items and/or Extraordinary items#)	(17.91)	1.91	(6.53)	(17.37)	14.17	(29.83)
4	Net Profit / (Loss) for the period						
	after tax (after Exceptional and/						
	or Extraordinary items#)	(8.09)	3.97	(4.92)	(7.57)	16.22	(28.21)
5	Total Comprehensive Income for						
	the period [Comprising Profit /	1	1			1	

CS & Co





#### **DISHMAN CARBOGEN AMCIS LIMITED**

Corporate Identity Number (CIN): 1.749006J2007PLC051338
Registered Ottlee: Dichman Corporate House, Iscon-Boyal Road, Ambil, Almedshad. – 380 058, Gujar
Pbone: +91:2717-420102/124 | Email: grievance@dichmangroup.com | Website: www.dichmangro

PUST BUT-BACK PUBLIC ANNOUNCEMENT FUR THE ATTENTION OF EQUITY SHAKEHOLDERS/BENEFICIAL
OWNERS OF EQUITY SHARES OF DISHMAN CARBOGEN AMCIS LIMITED
Inis Public Announcement ("Post Boy-back Public Announcement") is released in compliance with the provisions of Regulation 24(vt) of the Securities and Exchange Board of
ndia (Buy-back of Securities) Regulations, 2018 as amended ("Buy-back Regulations"). This Post Buy-back Public Announcementshouldbe read in conjunction with the public
announcement dated January 17, 2020 publishedon January 20, 2020 ("Public Announcement"). The terms used but not defined in this Post Buy-back Public Announcement
shall have the same meaning as assigned in the Public Announcement

- amountament dated January 17, 2020 polithoridon January 20, 2020 (Prable Amountament). The imm used but not defined in this lived by-back Pallal Amountament and that her this same merging as assigned in the Public Amountament.

  1.1. The Board of Direction of Different Cartinogen Amountain Cartinogen C

ı	3.1. The Pre and Post Buy-back Capital structureof the Company is as under:								
ı	St.	St. Particulars	Pre Buy-back as on the date of Public Announcement		Post Buy-back				
ı	St. Particulars	No. of Shares	Amount (₹)	No. of Shares	Amount (₹)				
ı	1	Authorized Share Capital	17,02,50,000 Equity Shares of ₹ 2/- each	34,05,00,000	17,02,50,000 Equity Shares of ₹ 2/- each	34,05,00,000			
ı	2	Issued, Subscribed and Paid-up Capital	16,13,94,272 Equity Shares of ₹ 2/- each	32,27,88,544	15,67,83,095 Equity Shares of ₹ 2/- each	31,35,66,190			

3.2. The shareholding pattern of the Company, pre and post Buy-back, is as under

Particulars	Pre Buy-back as on the date of Public Announcement		Post Bay-back	
Paniculars	No. of Equity Shares	% of the equity share capital	No. of Equity Shares	% of the equity share capital
Promoters and Promoter Group	9,90,96,898	61.40	9,90,96,898	63.21
Foreign Investors (Including Non Resident Indians, Fils, FPIs and Foreign Mutual Funds)	1,43,26,704	8.88		
Financial Institutions/ Banks/ Mutual Funds promoted by Banks/ Institutions	2,47,16,381	15.31	5,76,86,197	36.79
Others (public, public bodies corporate etc.)	2,32,54,289	14.41		
Total	16,13,94,272	100.00	15,67,83,095	100.00

MANAGER TO THERUY-RACK

NANAGER TO THEBUY-BACK

VIVRO FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED

Vivro House, 1 'S basel' Colono, Opp. Swinder Shooping Center,
Pelad, Mendedad—3000'D, Gleater, India

Tel No. - 9-19-9-04004242, [Fas No. -9-19-7-9-2650570]

Contact Praterio(1): Nr. Sharquar Parelo | Email: Investorigi-vivro net | Website: www.vivro.net

Contact Praterio(1): Nr. Sharquar Parelo | Email: Investorigi-vivro net | Website: www.vivro.net

Read Registration Nr. Ninholoxifo(122) | Validing-Permanet | Circ. UST72GJ196PT C029182

DRS RESPONSIBILITY

Registration 2. The Company of the Registrations, the Board of Directors of the Company accepts full responsibility for the information or Registration 2.0 (a) of the Board Amountement and confirms that such document contains true, factual and malertal information and does not contain any mis on abhard for the Board of Directors of Dishman Carbages Amount Lumbed

Ì	Sd/-	Sd/-	Sd/-
ı	Arpit J. Vyas	Dechooti J. Vyas	Shrima Dave
ı	Global Managing Diructor	Whole Time Director	Company Secretary & Compliance Officer
ı	DIN: 01540057	DIN: 00004876	(Membership Number: A29292)
ı	Place: Ahmadahad		Dober July 24, 2020



Bandhan Bank રીજનલ ઑકિસ : નેતાજી માર્ગ, મીઠાખળી છ રસ્તા પાસે, એલિસબ્રિજ, અમદાવાદ-ક. ક્ષેન : ૯૧-૭૯-૨૬૪૨૦૧ વાળવ-١૦૧૧

#### સાંકેતિક કબજા અંગેની નોટિસ

દા સિક્યુરિટાઇએશન એન્ડ રિકન્ટરૂકશન આંકુ શાઇનાબ્સિયલ એસેટ્સ એન્ડ એન્લોર્સમેન્ટ આંકુ સિક્યુરિટી ઇન્ટરેસ્ટ એકટ, ૧૦ વર્ના કદમ ૧૩(૧૨) હેઠળ આપવમાં આવેલી રાતાઓ, કે જેનો અર્થ ધ સિક્યુરિટી ઇન્ટરેસ્ટ (એન્લોર્સમેન્ટ) રૂલ્સ, ૧૦ ૨નાનિયમ ૮ માં આપવામાં આવ્યો છે, તે સત્તાઓનો ઉપયોગ કરતાં દેવાદારોને એક નકલ સાથે નોટિસ આપવામાં આવે છેકે, અધિકૃત અધિકારીએ,અહીં જણાવેલાં ખાતાંનો ડિમાન્ડ નોટિસ પાઠવી હતી અને તે નોતે નોટિસ મબાની તારીખથી 50 દિવસની અંદર, રકમ ભરપાઈકરી દેવા માટે જણાવ્યું હતું. દેવાદાર આ રકમ ભરવામાં નિષ્ફળ ગયા હોવાથી, દેવાદાર અને જાહેર જનાતાને નોદિસ આપવામાં આવે છે કે, નીચે સહી કરનાર વ્યક્તિએ, ઉપરોક્ત

ારાની કલમ ૧૧ કરોની પેટા કલમ (૪) જેનો અર્થે ઉપયોક્ત ધારામાં નિયમ ૮ માં આપવામાં આવ્યું છે –તે મુજબ તે વ્યક્તિ (નીચે સર્લિ કરનાર) ને મળેલી સત્તાનો ઉપયોગકરીને, તેણે અર્થી નીચે જે મિલકતનું વર્શન આપવામાં આવ્યું છે, તે મિલકતનો સાંકેતિક કબજો લઈ લીધો છે.

આથી, ખાસ કરીને દેવાદરને અને જાહેર જનતાને ચેતવવામાં આવે છે કે તે મિલકત અંગે કોઈપણ પ્રકારનો વ્યવણર કરવો નહીં અને છતાં જો તે મિલકત અંગે કોઈપણપ્રકારનો વ્યવણર કરવામાં આવશે તો તે અંગેની રકમ, વ્યાષ્ઠ, ખર્ચ અને શુલ્ક બાબતે, બેંકને અધીન રહેશે.

સિક્યોર્ડ એસેટ રીડીમ કરવા/પરત મેળવવા માટે ઉપલબ્ધ સમયના સંદર્ભે કાયદાની કલમ ૧૩ની પેટા કલમ (૮) ની જોગવાઈએો તરફ કર્જદારને

દેવાદારનું નામ, અને લોન ખાતા નં.	ਐਂਟੋਐ <b>*</b> ਮਿਲਰਗੁੰ ਪਈਂਕ (સિક્ચોર્ડ એસેટ)	डिभान्ड नोटिसनी तारीज	સાંકેતિક કબજા અંગેની નોટિસની તારીખ	ડીમાન્ડ નોટિસ આપેલ તારીખે બાકી રહેતી રકમ્
શ્રી ભરતભાઈ મેલાભાઈ દરબાર શ્રી નરેશભાઈ મેલાભાઈ બારૈયા શ્રી નરસ્વરભાઈ મેલાભાઈ બારૈયા લોન ખાતા નં. ૧૦૮/७૮૪	તમામ ચાલ અને અચલ સંપતિ જે ૧૦૮,૧૦૯,૧૧૮, ક્રાઇલન પ્લોટ નં. ૧૦૨, ગોફલાધામ બંગલોઝ, દ્વારેશ પાકેલી ભાગુમાં, હિવેકાનંદ નગર, ક્રાથીજા, અમદાવાદ શહેર, ગુજરાત –૩૮૧૪૫ સ્થિત છે, જેનું માપ આશેર ૧૩૧૪ શો. કીટ છે અને બંધાકામનું માપ આશેર ૧૩૮૫ શો. કીટ છે અને જે આવરિત છે ઉત્તર લાભુંલી જમીન પૂર્વ અભુંનો સ્ટરનો પાકેલમ છે. 80 હતા કે હતા	₹0.4₹.₹04€	<b>२0.0७.</b> २0२0	રૂ. ૧૨,૦૬,૨૪૫.૧૦
શ્રી મહેન્દ્રસિંહ પ્રતાપસિંહ રાજપૂત શ્રીમતી વીણાબેન મહેન્દ્રસિંહ રાજપૂત લોન ખાતા નં. ૧૦૮/૧૮૪૦	તમામ થાલ અને અચલ સંખવિ જે ૮૯૩ /પી, ટીપીએમ નં ૧૦૩, કાઇનલ પ્લોટ નં. ૩૦, ફ્લેટ નં. બી–૧૦૩, તૈટેલી રેસિકેન્ટની, સૂર્યમ ગ્રીન પાછળ, ઓએન્જુગરી વેલ પાસે, વચ્ચાલ, દસ્ક્રીઇ, અમદાશાદ, ગુજરાત-૩૮૪૪૧૮ સ્થિત છે, જેનું માપ આશરે પણ ચો. લીટ એ અને જે આવરિત છે ઉત્તર :૮૦ છીટ ટી.પી. રોક પૂર્વ રસ્તે નં. ૮૪૯ પશ્ચિમ સ્લેટ	११.0 २२०२०	40 % @40 40	<b>3.</b> ८,३४, ૯૬૮.७७
સ્થળ : અમદાવાદ તારીખ : ૨૫/૦૭/૧	2020			અધિકૃત અધિકારી બંધન બેંક લિમિટેક

ZenSár

### **Zensar Technologies Limited**

CIN No. L72200PN1963PLC012621

Registered Office: Zensar Knowledge Park, Piot#4, MIDC, Kharadi,
e- 411014, Maharashtra, India. Tel. No.: +91 20 6605 7500 | Fax No.: +91 20 6605 7888

#### Zensar reports PAT at 7.4% in Q1FY21

					(Rs. in Lakhs)
Particulars			Year Ended		
		30-Jun-2020	31-Mar-2020	30-Jun-2019	31-Mar-2020
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	. Total Income	1,00,920	1,03,390	1,08,565	4,27,010
2	Net Profit / (Loss) before tax	10,144	9,901	10,587	37,579
3	Net Profit / (Loss) after tax	7,489	7,200	7,572	27,160
	(before share of noncontrolling interests)				1 1
4	Total Comprehensive Income (before share of non controlling interests)	7,724	6,952	6,644	27,336
5	Equity Share Capital	4,509	4,508	4,504	4,508
6	Other equity (excluding Revaluation Reserve)				2,04,491
7	Earnings Per Share (Face value INR. 2 each) (not annualised):				
	a) Basic	3.25	3.0B	3.31	11.69
	b) Diluted	3.21	3.04	3.25	11.53

- These unaudited results have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles laid down in the Indian Accounting Standard 34 "Interim Financial Reporting" ("Ind AS 34"), prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules issued thereunder as annealed from time to inter. The above financial results were reviewed and recommended by the Audit Committee and taken on recordiby the Board of Directors at their meeting held on July 23, 2020.

  The consolidated financial results include the results of Cerear Technologies Ilmeted and its subsidiaries viz., Zensar Technologies Inc., Zensar Technologies (INC) Limited, Price Indian Cerear Technologies Ilmica, Jeans Technologies Inc., Zensar Technologies Inc., Zensar Technologies (INC) Limited, Protection Cerear Technologies Inc., Zensar Technolog

				(Rs. in Lakhs)		
Particulars	Quarter Ended			Year Ended		
	30-Jun-2020	31-Mar-2020	30-Jun-2019	31-Mar-2020		
	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited		
Revenue from Operations	32,840	35,299	33,706	1,37,030		
Profit before tex	8,925	9,491	6,362	30,410		
Net profit for the period	6,535	7,056	4,758	23,104		

- During the year ended March 31, 2020, Company reversed contingent consideration payable on business combinations consummated in previous year amounting to INR 2,568 lakhs (USD 3.6 million) based on company's assessment, being no longer payable. This reversal is accounted under other bracome. The Company continues to actively manage its business during COVID-19 pandemic and has not yet experienced significant changes on the business impact the editinated endire. In assessing the assumptions relating to the possible future uncertainties in the pichal economic conditions because of this pandemic, nothing has come to the attention of the Company through internal and external sourcess, which warrants a reassessment of carrylog amounts of financial and no infimatial assess on the expected future performance of the Company. The above is an extract offset-defailed formated (Quarterly Financial Results field with the Stock clushages under Regulation 33 of the SSRI (Listing Obligations and Obligations







